



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31, 2004—अगस्त 6, 2004 (श्रावण 9, 1926)  
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 2004—AUGUST 6, 2004 (SRAVANA 9, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

दिनांक 29 जून 2004

नई दिल्ली-110011, दिनांक 1 जून 2004

सं. ए-35014/1/2001-प्रशा.-2--सचिव, संघ लोक सेवा आयोग इस कार्यालय के कनिष्ठ लेखा अधिकारी श्री ओ. पी. गौड़ को आयोग कार्यालय में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में लेखा अधिकारी (ग्रुप 'ख' राजपत्रित) पद पर तदर्थ पदोन्नति आधार पर दिनांक 1.6.2004 (पूर्वाह्न) से 31.08.2004 (अपराह्न) प्रथमतः तीन महीने के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति आधार पर लेखा अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति के दौरान श्री ओ. पी. गौड़ का वेतन समय-समय पर संशोधित कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.1.1994 के का.ज्ञा. सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)  
संघ लोक सेवा आयोग

सं. ए-32013/4/2004/प्रशा.-2--अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतद्वारा, आयोग में श्रीमती गंगा देवी गुप्ता, प्रोग्राम-असिस्टेंट-कम-कनसोल-आपरेटर को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 8,000--13,500/- के वेतनमान में नियमित पदोन्नति आधार पर 01.07.2004 (पहली जुलाई, दो हजार चार) से आगामी आदेशों तक प्रोग्रामर (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'क', राजपत्रित) (अननुसूचित) के पद पर, नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती गंगा देवी गुप्ता, प्रोग्रामर के पद पर 01.07.2004 से दो वर्ष की अवधि तक परीक्षा पर रहेंगी।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)  
क्षेत्र अध्यक्ष  
संघ लोक सेवा आयोग

**कैन्द्रीय सतर्कता आयोग**

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2004

सं. 2/12/04-प्रशासन/1514--कैन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में सहायक श्रीमती शारदा खन्ना की अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 14.7.2004 से तीन माह की अवधि के लिए अधवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मोरी लाल  
उप सचिव (प्रशासन)

**गृह मंत्रालय**

सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद-500052, दिनांक 6 जुलाई 2004

सं. 15011/1/2004-स्थापना--भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्यालय स्थापन संख्या 1-21015/8/2004-भा.पु.से.-III दिनांक 07 अप्रैल, 2004 श्री एन. चैणुगोपाल, भा.पु.से. (हिमाचल प्रदेश 195) को 15 जून, 2004 पूर्वाह्न से सं.च. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर चार वर्षों के लिए अधवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो, नियुक्त किया जाता है।

मणोरम झा  
निदेशक

महानिदेशालय, कैन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 जुलाई 2004

सं. ओ.सी.-3557/2004-कार्मिक-1--भारत सरकार ने श्री संजीव रंजन ओझा, भा.पु.से. (हिमाचल 189) को कैन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया है।

2. तदुसार, अधिकारी ने पुलिस उप महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल, का कार्यभार दिनांक 5.7.2004 (पूर्वाह्न) को संभाल लिया है।

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

दिनांक 12 जुलाई 2004

सं. पी.सात.-9/2004-कार्मिक-1--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति पर वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200/- में सहायक निदेशक (लेखा) के पद पर स्थापनापन्न रूप में सहर्ष नियुक्त

करते हैं। तदुसार उन्होंने उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख को उनके पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	पदभार ग्रहण की तारीख
1.	श्री हीरो गुरबानी, सहायक निदेशक (लेखा) (इरला नं. 3796)	2.7.2004 (पूर्वाह्न)
2.	श्री सुकंवलाल, सहायक निदेशक (लेखा) (इरला नं. 3960)	2.7.2004 (पूर्वाह्न)

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

**महानिदेशालय**

कैन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 जुलाई 2004

सं. ई-28014/जेएस/2002/कार्मिक-2/1511--श्री आर. एस. खण्डासिवा, सहायक कमिन्डेंट, केओसुब इकाई, जोड़ीपीएस, डेपू, नई दिल्ली को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश के विधिवत प्राप्त होने की तारीख के अगले दिन के पूर्वाह्न से अर्थात् दिनांक 6.7.2004 (पूर्वाह्न) से एस.आर.-56 (जे) को तहत सेवानिवृत्त किया जाता है।

ह./= अधकणीय  
महानिदेशक

दिनांक 13 जुलाई 2004

सं. ई-16019(2)/2/2003/कार्मिक-1/32--राष्ट्रपति, केओसुब को निम्नलिखित कमिन्डेंट की 14,300-400-18,200/- रु. के वेतनमान में वरिष्ठ कमिन्डेंट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं।--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्य-भार ग्रहण किया	वरिष्ठ कमिन्डेंट के रूप में कार्य-भार संभालने की दिनांक
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	एस. एन. बाग	एकवीवी कारकता	15.06.2004 (पूर्वाह्न)
2.	एस. सुब्रामन्यम	सबूह मुख्यालय कीचीन	21.05.2004 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
सर्वश्री			
3. एस. सममुगा नन्दन	6आ. बाहिनी आराकोमन	21.05.2004 (पूर्वाह्न)	
4. जी. एस. नायर	बीएसएससी मुम्बा	21.05.2004 (पूर्वाह्न)	
5. एस. सी. सकलानी	समूह मुख्यालय नई दिल्ली	21.05.2004 (पूर्वाह्न)	
6. उत्पल चौधरी	एचईसी रांची	28.06.2004 (पूर्वाह्न)	
7. ए. एस. चैल्लादुराई	डीएस कार्लपक्कम	21.05.2004 (अपराह्न)	
8. महावीर सिंह	एमटीपीसी बादरी	21.05.2004 (अपराह्न)	
9. के. के. सिंह	समूह मुख्यालय पटना	28.06.2004 (अपराह्न)	
10. जगवीर सिंह	बल मुख्यालय नई दिल्ली	24.05.2004 (पूर्वाह्न)	
11. एस. ए. नईम	बीसीसीएल धनबाद	28.05.2004 (अपराह्न)	
12. सतवीर सिन्धू	बीएसईएल हरिद्वार	31.05.2004 (पूर्वाह्न)	
13. बी. पी. प्रभु	मालको वानमजोडी	21.05.2004 (अपराह्न)	
14. उदयन बनर्जी	बंगलौर एयरपोर्ट	21.05.2004 (अपराह्न)	
15. एस. एस. सम्भू	आरटीसी बैजली-II (राज.)	22.05.2004 (पूर्वाह्न)	
16. सी. बी. आईप	द.प. खण्ड मुख्यालय मुम्बाई	21.05.2004 (पूर्वाह्न)	
17. पी. के. शर्मा	पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय पटना	22.05.2004 (अपराह्न)	
18. संजीत दास	एमडीएल मुम्बाई	21.05.2004 (पूर्वाह्न)	
19. जे. बी. कौशिक	समूह मुख्यालय गोहाटी	21.05.2004 (पूर्वाह्न)	
20. बी. सी. मेहता	आर एस पी राउरकेला	21.05.2004 (अपराह्न)	

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

## दिनांक 14 जुलाई 2004

सं. ई-31013(1)/4/2003/कार्मिक-II/1549--श्री एच. के. शर्मा, कमान्डेंट, केओसुब जो वर्तमान में आई.बी., नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को स्थानावर्तन रूप में 'अगले निचले नियम' के तहत 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 28 जून, 2004 (अपराह्न) से वरिष्ठ कमान्डेंट के रैंक में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

## दिनांक 19 जुलाई 2004

सं. ई-16013(1)/8/99/कार्मिक-1/1584--राष्ट्रपति, श्री पी. बी. के. रेड्डी, भापुसे (एमटी : 82) उप महानिरीक्षक को केओसुब में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में महानिरीक्षक के रैंक में पदोन्नत करते हैं। अधिकारी ने 01.07.2004 के पूर्वाह्न में महानिरीक्षक (द.प.बी.) मुख्यालय मुम्बाई के पद पर कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

## भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 17 जून 2004

सं. 1/5/2002-प्रशा.-III--राष्ट्रपति, श्री एस. पी. दाता, अनुसंधान अधिकारी (भाषा) को भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, भाषा प्रभाग, कोलकाता में दिनांक 09.06.2004 (पूर्वाह्न) अर्थात् उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से नियमित आधार पर अस्थायी क्षमता में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में प्रोन्नति द्वारा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जयंत कुमार बांडिया  
भारत के महारजिस्ट्रार एवं  
जनगणना आयुक्त

## वित्त मंत्रालय

## आर्थिक कार्य विभाग

## प्रतिभूति कागज कारखाना

होशंगाबाद-461005, दिनांक 9 जुलाई 2004

सं. 7(154)/3832--विभागीय पदोन्नति समिति वर्ग 'ख' की सिफारिशों के आधार पर श्री फूलचन्द सावव को तकनीकी अधिकारी (प्रक्रिया) के पद पर वेतनमान रुपये 7,450-225-11,500/- में दिनांक 9.07.2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

इसका परीक्षाकाल दो वर्ष रहेगा।

अश्विनी कुमार  
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग  
महालेखाकार (ले. व ह.) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 12 जुलाई 2004

सं. का.स्था./ह. व रो./ई-IVपै./56--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा  
विभाग के निम्नलिखित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हुई है :-

क्रम सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती पी. वत्सला	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.06.2004 (अपराह) (अधिवर्षिता)

ह/- अपठनीय  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 1 जुलाई 2004

सं. डब्ल्यू.एम.-I/स्थापना/62--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम  
बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी-I को  
इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतनमान  
रुपये 7,500-250-12,000/- में अस्थाई तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ  
प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के  
प्रभाव से वर्तमान डिवीजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिवीजन में  
अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो  
वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक	नाम
1.	श्री क्षितिश चन्द्र चौधाली (अनुसूचित जाति)

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ  
प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक  
महीना के अन्दर एफ.आर.-22(I)(ए)(i) के तहत अपना विकल्प  
प्रस्तुत करें।

पी. के. दास  
उपमहालेखाकार (लेखा)

दिनांक 5 जुलाई 2004

सं. डब्ल्यू.एम.-I/स्थापना/64--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम  
बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी-II को  
इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी-I के रूप में  
वेतनमान रुपये 7,450-225-11,500/- में अस्थाई तथा स्थानापन्न क्षमता  
में प्रभागीय लेखा अधिकारी-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक  
के प्रभाव से वर्तमान डिवीजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिवीजन

में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से  
दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक	नाम
1.	श्री प्रणव कुमार बंधोपाध्याय
2.	श्री देवाशीष राय चौधुरी
3.	श्री गोपाल कृष्ण अधिकारी

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु प्रभागीय  
लेखा अधिकारी-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक महीना  
के अन्दर एफ.आर.-22(I)(ए)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत  
करें।

पी. के. दास  
उपमहालेखाकार (लेखा)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 2004

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष  
निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) "लेखापरीक्षा  
अधिकारी (सिविल)" के संवर्ग को रु. 7,500-250-12,000/- के  
वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से पदोन्नति प्रदान  
करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	क. आ. सं. तथा तिथि	पदोन्नति तिथि
	श्री/श्रीमती/सुश्री		
01.	ए. चिन्मय	46/1-7-2004	1-7-2004 (पूर्वाह)
02.	बी. श्रीरामचरणा	46/1-7-2004	1-7-2004 (पूर्वाह)
03.	पी. आदित्यरायण शर्मा	46/1-7-2004	2-7-2004 (पूर्वाह)
04.	एन. राघवा चारी	46/1-7-2004	1-7-2004 (पूर्वाह)
05.	के. श्याम सुन्दर राव	46/1-7-2004	2-7-2004 (पूर्वाह)
06.	ए. राम मोहन राव-I	46/1-7-2004	1-7-2004 (पूर्वाह)
07.	एम. कालीदास	46/1-7-2004	1-7-2004 (पूर्वाह)
08.	एस. जयकुमार	46/1-7-2004	1-7-2004 (पूर्वाह)
09.	ए. नागेश्वर राव	55/2-7-2004	5-7-2004 (पूर्वाह)

उपर्युक्त पदोन्नतियाँ उनके वरिष्ठों के दावों, यदि हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत का उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लम्बित याचिकाओं के परिणामों के बशर्ते आदेशित हैं। भारत सरकार का. ज्ञा. सं. एफ-7/1/80-स्था. (पी.-1), दिनांक 26.09.1981 तथा एफ-13/26/82-स्था. (पी.-1), दिनांक 08.02.1983 के अनुसार उन्हें अपना विकल्प एक माह के अन्दर देना होगा।

जी. श्रीनिवास  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को स्वेच्छिक/अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि(यों) से सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/सुश्री		
01.	ए. कोटेश्वर राव	व.ले.प.अ.	30.06.2004 (अपराह)
02.	के. पल्लपराजु	व.ले.प.अ.	30.06.2004 (अपराह)
03.	आर. एम. कृष्ण राव	व.ले.प.अ.	30.06.2004 (अपराह)
04.	यू. पद्म राजु	व.ले.प.अ.	30.06.2004 (अपराह)
05.	मिरज़ा फरूख बेग	व.ले.प.अ.	30.06.2004 (अपराह)
06.	ए. वेणु गोपाल राव-I	व.ले.प.अ.	30.06.2004 (अपराह)
07.	वै. वै. एल. नरसिम्ह मूर्ति	व.ले.प.अ.	30.06.2004 (अपराह)
08.	टी. चलपति राव	ले.प.अ.	30.06.2004 (अपराह)
09.	एन. के. गोपाल कृष्णन	व.ले.प.अ.	01.07.2004 (पूर्वाह) (स्वेच्छिक)

जी. श्रीनिवास  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को अधिवर्षिता

पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/सुश्री		
01.	के. सत्यनारायण-III	स.ले.प.अ.	30.06.2004 (अपराह)
02.	जे. धर्मा राव	स.ले.प.अ.	30.06.2004 (अपराह)
03.	सी. एच. एरुकलथ्य	स.ले.प.अ.	30.06.2004 (अपराह)

जी. श्रीनिवास  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 2004

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ने निम्नलिखित सहायक लेखा-धिकारियों को रु. 7500-250-12000 के वेतनमान पर लेखा अधिकारियों के रूप में निम्न प्रभावी तिथि से पदोन्नति सहर्ष देते हैं।

यह पदोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों पर, यदि कोई हो, बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आन्ध्र प्रदेश न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं के परिणामों के अधीन होंगे :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/सुश्री	
01.	ओ. राम कृष्णाराव	1.7.2004 (पूर्वाह)
02.	सी. एच. मलेशेखर राव	1.7.2004 (पूर्वाह)
03.	के. अक्क महादेवी	1.7.2004 (पूर्वाह)
04.	एम. मीनाक्षी	1.7.2004 (पूर्वाह)
05.	जी. उषा राणी	5.7.2004 (पूर्वाह)

के. राधाकृष्णमूर्ति  
उप-महालेखाकार (प्रशासन)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 16 जुलाई 2004

पत्रांक 148 जी.ई.1/176-98/भाग.II.--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त हो चुके हैं :-

क्रम सं.	कार्यकारी का नाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
सर्वश्री		
1.	आनन्द शंकर अधिवार्धिकी	दिनांक 30.6.2004 (अपराह)
2.	किशोरी लाल	--यथोक्त--
3.	एन. पी. कपूर	--यथोक्त--

दीपक नारायण

सहायक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

कोयला एवं खान मंत्रालय  
(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 19 जुलाई 2004

सं. 1788ए/ए-19012 (2-टी.आर.बी.)/02/19बी--श्री धम्म राजाबाधू, भूभौतिकीविद् श्रेणी-I, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, गुवाहाटी में वैज्ञानिक-"ख" (कनिष्ठ भूभौतिकीविद्) के पद पर अपना कार्यग्रहण हेतु 01.07.2004 (पूर्वाह) से प्रभावित 2 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अपना पुनर्ग्रहणाधिकार रखते हुए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से 01.07.2002 (पूर्वाह) से कार्यमुक्त हो गए।

के. सी. घोष  
प्रशासन अधिकारी  
श्रुते महानिदेशक  
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 19 जुलाई 2004

सं. 1622बी/ए-19011 (1-के.बी.सी.)/04/19ए--राष्ट्रपति जी श्री के. बी. चन्द्रन को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर रु. 8,000-275=13500/- के वेतनमान को न्यूनतम वेतन में अस्थाई रूप में आगामी आदेशों तक 09.06.2004 के (अपराह) से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
श्रुते महानिदेशक  
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

सं. 1606बी/ए-19012 (1-एम.एस.एस.)/99/19ए--महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण श्री एम. संथाना सुब्रमण्य द्वारा केंद्रीय

भूमिगत जल बोर्ड में कनिष्ठ जलभूविज्ञानी के रूप में अपनी नई नियुक्ति ग्रहण करने हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-1 के पद से उनके प्रदत्त प्राविधिक त्यागपत्र की दिनांक 21.10.2003 (अपराह) से स्वीकृत करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
श्रुते महानिदेशक  
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली-10003, दिनांक जुलाई 2004

सं. ए-12039/5/94-ई.1.--राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत मौसम विज्ञान विभाग में मौसम विज्ञानी श्रेणी-2 के पद पर उनके नामों के आगे दर्शाए गए दिनांक से आगामी आदेशों तक के लिए अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	तारीख जिससे मौसम विज्ञानी श्रेणी-2 के रूप में नियुक्त हुए
1	2	3
1.	श्री एन. टी. गिवास	11.11.2003
2.	श्री संजय बिष्ट	11.11.2003
3.	श्री सिद्धार्थ	11.11.2003
4.	श्री सी. एस. पाटील	11.11.2003
5.	श्रीमती एस. ए. भूटे	11.11.2003
6.	श्री अनिल कुमार	11.11.2003
7.	श्री कुलदीप श्रीवास्तव-1	11.11.2003
8.	श्री नरेश कुमार	11.11.2003
9.	श्री ए. सी. लींगदोह	11.11.2003
10.	श्री सी. एस. तोमर	11.11.2003
11.	श्री संकर नाथ	11.11.2003
12.	श्री ए. के. मित्रा	11.11.2003
13.	श्री आर. बालासुब्रामनियम	11.11.2003
14.	श्री राजावेल मानिकम	11.11.2003
15.	श्री यू. के. रौंदे	11.11.2003
16.	श्री जे. के. सिंह पादव	11.11.2003
17.	श्री कुलदीप श्रीवास्तव-2	11.11.2003

1	2	3
18.	श्री अंजित अंजन	11.11.2003
19.	श्री राकेश कुमार	11.11.2003
20.	कुमारी जी. अनुधा	11.11.2003
21.	श्री नीमाजी नाथन नागमणी	11.11.2003
22.	श्री पी. एस. जीजू	11.11.2003
23.	श्री जी. ए. कामन	11.11.2003
24.	श्री एच. आर. विश्वास	10.03.2004
25.	श्री एम. आर. रमलकर	10.03.2004
26.	श्री जी. रमल दुरई	10.03.2004
27.	श्री जी. के. सवाईसरजे	10.03.2004
28.	श्री सुनील दास	10.03.2004
29.	श्री पी. सुनील	10.03.2004
30.	श्री आनन्द कुमार दास	10.03.2004
31.	श्री. मनोरमा मोहनजी	10.03.2004
32.	श्री ए. पी. पाण्डेय	10.03.2004
33.	श्री श्रीजीत ओ. पी.	10.03.2004
34.	श्री एच. एस. मंडल	10.03.2004
35.	श्री एम. पुषियारासन	10.03.2004
36.	श्री अशोक कुमार दास	10.03.2004
37.	श्रीमती जी. के. मिनी	10.03.2004
38.	श्री सीरव अधिकारी	10.03.2004

ए. के. भट्टाचार्य  
जी. वि. के. उच्चमहाविद्यालय  
(प्रशासन एवं भण्डार)  
कृते बीएस विज्ञान के महाविद्यालय

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुम्बई-85, दिनांक 2 जुलाई 2004

सुनि-पत्र

सं. पीए/7(15)/2003-आर-4==इस अनुसंधान केंद्र के दिनांक 30 मार्च, 2004 की समर्थक अधिसूचना के कालम संख्या 3 में वर्णित एवं श्री ए. एस. कारखानीस (क्रमांक 4) द्वारा वर्तमान में धारित पद की वैज्ञानिक सहायक/एक के स्थान पर दृक्कृतमैन/एक चड़ा जाए।

डॉ. जी. डी. पुंगले  
निर्देशक

मुम्बई-85, दिनांक 13 जुलाई 2004

सं. पीडी/12(2)/2003-आर-III/918==निर्देशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री के. के. डोगे, ब्रवर श्रेणी लिपिक की दिनांक 24.05.2004 (पूर्वाह्न) से 25.06.2004 (अवराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 5 जुलाई 2004

सं. 18/1(2)/2003-ईआर/2113==राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा निवामक बोर्ड (ईआरबी) के निदेशावलि अधिकारियों दिनांक 1 फरवरी 2004 पूर्वाह्न से भावी आदेशों के तहत उनके नाम के सामने उल्लिखित अगले उच्चतर ग्रेड में नियुक्त करते हैं :-

क्र.	अधिकारी का नाम	पदोन्नत ग्रेड	वेतनमान
सं.			
1.	श्री सतीश रामचन्द्र भावे, वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	12000-375- 16500
2.	श्री जगन्नाथ मिश्रा, वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	10000-325- 15200
3.	श्री श्रीराम रविन्द्रनाथ धोत्रे, वैज्ञानिक सहायक/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	8000-275- 13500
4.	श्री निधिप बंधूकर बोधनकर, वैज्ञानिक सहायक/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	8000-275- 13500

के. चक्रावर्त  
अवर सचिव

=====

नाभिकीय ईंधन सचिव

इंदौराबाद-500062, दिनांक 10 जुलाई 2004

सं. नाईस/काप्रभ-1/04/06/694==मुख्य कार्यवाहक, एनएफसी श्री सी. एच. जगदीश, ब्रवर श्रेणी लिपिक की रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर दिनांक 16.04.2004 से 10.07.2004 तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पूर्व हो, सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. आई. ब्रह्माचारी  
प्रशासनिक अधिकारी

मुम्बई-400001, दिनांक 17 जुलाई 2004

सं. 6(2369)/2004-प्रशा./4725--राष्ट्रपति, श्री एस. कृष्णन, विशेष कार्य अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/-) परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई को दिनांक 23 जून 2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि हेतु अथवा भावी आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो के लिए उसी विभाग में उसी वेतनमान में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. वेणुगोपालन  
स्टाफ संपर्क अधिकारी (प्रशा.)

मुम्बई-400001, दिनांक 15 जुलाई 2004

सं. 16/2(1)/2004-एसयूएस/4748--राष्ट्रपति, श्री पी. राजशेखरन, वैज्ञानिक सहायक/डी, सिविल (वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/-), सामान्य सेवा संगठन, कलपाककम को दिनांक 01.02.2004 को पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक उसी यूनिट में पदोन्नति पर वैज्ञानिक अधिकारी/सी (वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/-) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

डी. सुरेन्द्रन  
अवर सचिव

प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 7 जुलाई 2004

सं. कंट/प्रशासन/भ.-807(2)/621--निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर ने श्री परिवेश जिनवाल, स्टेनो ग्रेड-II को इस केन्द्र में वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में सहायक कार्मिक अधिकारी के अवकाश रिक्त पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 10.05.2004 (पूर्वाह्न) से 10.06.2004 (अपराह्न) तक नियुक्त किया है।

एस. सी. जैन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुम्बई-400020, दिनांक 5 जुलाई 2004

सं. एफ-301-एडी(एटी)/2004--श्री ठाकर राजेन्द्रकुमार चंदुलाल, आशुलिपि ग्रेड-III, गुजरात राज्य आपूर्ति निगम लिमिटेड, सीएच रोड, गांधीनगर, को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91.स्था. (वेतन-2), दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, राजकोट पीठ, राजकोट में, रु. 6500-200-10500/- के वेतनमान में दिनांक 11-06-2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

सं. एफ-48-एडी(एटी)/2004-- निम्नलिखित कर्मचारियों को, एतद् द्वारा, तदर्थ आधार पर, अस्थायी क्षमता में, उनके नामों के समक्ष दर्शायी गई न्यायपीठों में, दर्शाई गई तिथियों से तीन माह की अवधि के लिए अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, आयकर अपीलीय अधिकरण में स्थानापन्न रूप में सहायक पंजीकार के पदों पर, नियुक्त किया जाता है :--

क्रमांक	नाम	न्यायपीठ/पीठें	दिनांक
	श्री/सर्वश्री		
1.	आर. एन. लोखंडवाला (अधीक्षक)	पणजी	28.06.2004
2.	एक्का पीटर (कार्यालय अधीक्षक)	दिल्ली	28.06.2004

उपर्युक्त नियुक्तियां तदर्थ आधार पर हैं और यह उन्हें इस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं वरिष्ठता के अधिप्राय से अथवा उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति हेतु नहीं गिनी जाएगी।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)  
कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सी. आर. बागड़ी  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 फरवरी 2004

सं. 560(3)/331/एसईएस/55-100252/3458--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स सी. आर. बागड़ी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विचरित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

बैंगलूर, दिनांक 25 जून 2004

सं. एसटीए/एनकेआर/560(5)/2004-05--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती

है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	2111	मैसर्स श्रीरायला टेम्क्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	2093	मैसर्स श्रीरायला कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड।

बी. ए. एम. पी. रत्नसामी  
कम्पनियों के उप रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स डालफिन कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 जुलाई 2004

सं. 560(3)/55/49270/515--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स डालफिन कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

पाण्डिचेरी-605011, दिनांक 15 जुलाई 2004

सं. 560(5)/एसईएस/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम	रजिस्ट्रेशन दिनांक
1	2	3	4
1.	1336	मैसर्स त्रिस्टार एनर्जी लिमिटेड	4.8.1997
2.	1384	मैसर्स श्री अबिरामी प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	9.3.1998
3.	1401	मैसर्स सोल फ्लेक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	3.6.1998

1	2	3	4
4.	1552	मैसर्स श्री कौठरी इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	12.9.2000
5.	1494	मैसर्स कृष्णा इन्फार्मेशन प्रोसेसिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	1.10.1999
6.	733	मैसर्स सबरी फार्मेस्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	4.2.1991
7.	183	मैसर्स शारदा इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	21.10.1981
8.	1489	मैसर्स नेटवर्क्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	26.09.1999
9.	1355	मैसर्स श्री मोबियस कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	20.11.1997
10.	1277	मैसर्स श्री लूस ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	2.12.1996
11.	1521	मैसर्स वैसल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	9.2.2000
12.	1555	मैसर्स टोबी इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	25.09.2000
13.	1418	मैसर्स रिबीरोस बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	4.8.1998
14.	1369	मैसर्स साइराम प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	9.1.1998
15.	1453	मैसर्स बेईन मार्केटिंग एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	12.3.1999
16.	1337	मैसर्स ट्रस्टेड ट्रेवल एण्ड फोरवर्ड प्राईवेट लिमिटेड	12.8.1997
17.	1435	मैसर्स एक्सेस इन्फार्मेटिक्स (पीडी) प्राईवेट लिमिटेड	15.10.1998
18.	1303	मैसर्स मारस मात्रा टूरिस्ट ब्यूरो एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	17.3.1997
19.	1273	मैसर्स श्री मानाकुला विनायकर फाइनेन्स लिमिटेड	4.11.1996
20.	1351	मैसर्स एल्लीस एल्यूमिनियम प्राईवेट लिमिटेड	24.10.1997
21.	1519	मैसर्स चर्चगेट होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	27.1.2000
22.	1625	मैसर्स मिडवेस्ट ग्रेनाइट (पाण्डिचेरी) प्राईवेट लिमिटेड	18.1.2002
23.	192	मैसर्स यानम पेपर्स लिमिटेड	16.3.1982

1	2	3	4	1	2	3	4
24.	301	मैसर्स फोन्ती पेपर्स एण्ड बोर्ड्स लिमिटेड	11.12.1985	32.	1407	मैसर्स ट्रोपिकल ग्रेनाइट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	9.6.1998
25.	812	मैसर्स बालाजी शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	21.5.1992	33.	1157	मैसर्स सिद्धि विनायक चिन्स प्राइवेट लिमिटेड	10.11.1995
26.	1145	मैसर्स वेस्टवुड फाइनेन्स एण्ड लीजिंग लिमिटेड	4.10.1995	34.	770	मैसर्स लक्ष्मी रेजिडेन्स मिनिफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	14.10.1991
27.	1362	मैसर्स शिवकृपा इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	12.12.1997	35.	760	मैसर्स लक्ष्मी स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड	22.8.1991
28.	612	मैसर्स सोकोस्ट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	27.12.2003	36.	1087	मैसर्स डालफिन इण्डियन ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	10.11.1994
29.	1413	मैसर्स रसिका ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	1.7.1999	37.	1486	मैसर्स सेन्ट जोसेफ्स मॉडर्न कपर्स प्राइवेट लिमिटेड।	30.3.1999
30.	1494	मैसर्स पंकज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	24.9.1999				
31.	1408	मैसर्स वेस्टर्न ग्रीन ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	9.6.1998				

एक: कण्ठन  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
प्राइवेटरी

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 1st June 2004

No. A-35014/1/2001-Admn.—~~Secy.~~ Secretary, Union Public Service Commission hereby appoints ~~Shri~~ O. P. Gaur, Junior Accounts Officer, UPSC to the post of Accounts Officer, UPSC (Group "B" Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on ad-hoc promotion basis in the Commission's office initially for a period of three months w.e.f. 01.06.2004 (F.N.) to 31.08.2004 (A.N.) or until further orders, whichever is earlier.

2. During his appointment as Accounts Officer on ad-hoc promotion basis, the pay of Shri O. P. Gaur will be regulated in accordance with the provisions contained in D/o Per. & Trg. O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II), dated 06.01.1994 as amended from time to time.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

The 29th June 2004

No. A-32013/4/2004-Admn.-H.—The Chairman, Union Public Service Commission hereby appoints Smt. Ganga Devi Gupta, Programme-Assistant--Cum--Console-Operator in the Commission's to the post of Programmer (General Central Service Group 'A', Gazetted) (Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- in the office of Union Public Service Commission on regular promotion basis w.e.f. 01.07.2004 (First July, Two thousand four) until further orders.

2. Smt. Ganga Devi will be on probation in the post of Programmer for a period of two years w.e.f. 01.07.2004.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)  
for Chairman

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 16th July 2004

No. 2/12/04-Admn./1554.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Smt. Sharda Khanna, Assistant in the Commission as Section Officer in the Commission in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- for a period of three months on ad-hoc basis with effect from 14.07.2004 till further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
SARDAR VALLABH PATEL NATIONAL POLICE  
ACADEMY

Hyderabad-500052, the 6th July 2004

No. 15011/1/2004-Estt.—Vide the Government of India, Ministry of Home Affairs' Message No. I-21015/8/2004-IPS-III, dated 07.04.2004, Shri N. Venk Gopal, IPS (HP : 95) has been appointed as Assistant Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad on deputation with effect from the forenoon of the 15th June 2004 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier, on usual terms and conditions of deputation.

GANESH K. JHA  
Director

## DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-03, the 8th July 2004

No. O.M.-3557/2004-Pers.-I.—The Govt. of India has appointed Shri Sanjeev Ranjan Ojha, IPS (HP : 89) as Deputy Inspector General of Police in CRPF on deputation basis for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Deputy Inspector General of Police, CRPF in the forenoon of 5.7.2004.

J. N. SHARMA  
Addl. DGP (Pers.-I)

The 12th July 2004

No. P.VII.9/2004-Pers.-I.—The President is pleased to appoint the following officers on promotion to the rank of Assistant Director (Accounts) in CRPF in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-. Accordingly, they have taken over charge of the post of Assistant Director (Accounts) from the dates as noted against each :—

Sl. No.	Name of the Officer and designation	Date of assumption of charge as Assistant Director (Accounts)
1.	Shri Hiro Gurbani, Assistant Director (A/cs.) IRLA : 3796	2.7.2004 (F.N.)
2.	Shri Mukund Lal, Assistant Director (A/cs.) IRLA : 3960	2.7.2004 (F.N.)

J. N. SHARMA  
Addl. DGP (Pers.-I)

## CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 9th July 2004

No. E-28014/JS/02/Pers.-II/1511.—Shri R. S. Khandasia, Asstt. Commandant, CISF Unit, GTPS DESU, New Delhi is retired under FR-56(j) with effect from 6.7.2004 (F.N.) i.e. from the forenoon of the date following the date he duly acknowledged the order of retirement passed by the Competent Authority.

Sd./- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

The 13th July 2004

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers.-I/32.—The President is pleased to appoint the following Commandants on regular promotion to the rank of Senior Commandant in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Senior Commandant on regular basis
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	L. N. Bag	FBP Farakka	15.06.2004 (F.N.)
2.	S. Subramaniam	GP. HQrs. Cochin	21.05.2004 (F.N.)
3.	S. Shanmuganandan	6th Res. BN. Arakkonam	21.5.2004 (F.N.)
4.	G. S. Nair	VSSC Thumba	21.05.2004 (F.N.)
5.	S. C. Saklani	GP. HQrs. New Delhi	21.05.2004 (F.N.)
6.	Utpal Choudhary	HEC Ranchi	28.06.2004 (F.N.)
7.	A. S. Chelladurai	DAE Kalpakkam	21.05.2004 (A.N.)
8.	Mahavir Singh	NTPC Dadri	21.05.2004 (A.N.)
9.	K. K. Singh	GP. HQrs. Patna	28.06.2004 (A.N.)
10.	Jagbir Singh	FHQ New Delhi	24.05.2004 (F.N.)
11.	S. A. Naeem	BCCL Dhar	05.2004 (N.)

1	2	3	4
12.	Satvir Sindhu	BHEL Haridwar	31.05.2004 (F.N.)
13.	V. P. Prabhu	NALCO Damanjodi	21.05.2004 (A.N.)
14.	Udayan Banerjee	Bangalore Airport	21.05.2004 (A.N.)
15.	S. S. Sandhu	RTC Deoli-II, (Raj.)	22.05.2004 (F.N.)
16.	C. V. Iype	SWS HQrs. Mumbai	21.05.2004 (F.N.)
17.	P. K. Sharma	EZ HQrs. Patna	22.05.2004 (A.N.)
18.	Sanjit Das	MDL Mumbai	21.05.2004 (F.N.)
19.	J. B. Kaushik	GP. HQrs. Guwahati	21.05.2004 (F.N.)
20.	B. C. Mehta	RSP Rourkela	21.05.2004 (A.N.)

Sd./- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

The 14th July 2004

No. E-31013(1)/4/2003/Pers.-II/1549.—Shri H. K. Sharma, Commandant of CISF who is presently on deputation with IB, New Delhi, is hereby granted proforma promotion under 'Next Below Rule' in the officiating capacity to the rank of Senior Commandant in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from 28th June, 2004 (afternoon).

Sd./- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

The 19th July 2004

No. E-16013(1)/8/99/Pers.-I/1584.—The President is pleased to promote Shri P. V. K. Reddy, IPS, (MT : 82) DIG, CISF to the rank of Inspector General in CISF in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/-. The officer has assumed charge of the post of Inspector General, CISF (SWS) HQrs., Mumbai in the forenoon of 01.07.2004.

Sd./- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

## OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 17th June 2004

No. 1/5/2002-Ad.-III.—The President is pleased to appoint Shri S. P. Datta, Research Officer (Language) to the post of Senior Research Officer (Language) by promotion in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on a regular basis in a temporary capacity in the Office of the Registrar General, India, Language Division, Kolkata with effect from 09.06.2004 (A.N.), the date on which he assumed charge of the post.

J. K. BANTHIA  
Registrar General &  
Census Commissioner, India

MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS  
SECURITY PAPER MILL

Hoshangabad-461005, the 9th July 2004

No. 7(154)/3832.—Based on the recommendation of the D.P.C. (Group 'B') Shri Phool Chand Yadav is promoted to the Post of Technical Officer (Process) in the Pay Scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 09.07.2004 (P.N.) on regular basis until further orders.

He will be on probation for a period of two years.

ASHWINI KUMAR  
General Manager

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & B),  
KERALA

Thiruvananthapuram, the 12th July 2004

No. O.B./B&C/IVP/56.—The following Officials of IA & AD retired from Service :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. P. Vatsala	Senior Accounts Officer	30.06.2004 (A.N.) (Superannuation)

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (A & B), WEST BENGAL

Calcutta-700001, the 1st July 2004

No. WM-1/Estt./62.—Under the orders of the Pr. A.G. (A. & B.), West Bengal, the following Divisional Accounts

3-17661/04

Officer Grade-I is hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Senior Divisional Accounts officer in the present division noted against him till further orders. He will be on probation for a period of two years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No.	Name
---------	------

1.	Shri Kshitij Ch. Dasgupta (S.C.)
----	----------------------------------

The above named officer may submit his option under FR 22(1)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as Sr. D.A.O. for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (A/es.)

The 5th July 2004

No. WM-1/Batt./64.—Under the orders of the Pr. A.G. (A. & B.), W.B., the following Divisional Accounts Officers Grade-II are hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade-I in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Divisional Accounts Officer Grade-I in the present division noted against each till further order(s). They will be on probation for a period of two years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No.	Name
---------	------

1.	Shri Pranab Kr. Bandyopadhyay
2.	Shri Debasish Roy Chowdhury
3.	Shri Gopal Krishna Adhikary

The above named officers may submit their options under FR 22(1)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as D.A.O. Grade-I for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (A/es.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL, ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 2004

Principal Accountant General (Audit)-I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to promote the following Assistant Audit Officers (Civil) of this Office to the cadre of "Audit

Officer" (Civil) in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office Order No. & Date	Date of assumption of charge
1.	S/Shri A. Chinnappa	46/01.07.2004	01.07.2004 (F.N.)
2.	V. Sriramacharana	46/01.07.2004	01.07.2004 (F.N.)
3.	P. Adinarayana Sarma	46/01.07.2004	02.07.2004 (F.N.)
4.	N. Raghava Chary	46/01.07.2004	01.07.2004 (F.N.)
5.	K. Syamasundara Rao	46/01.07.2004	02.07.2004 (F.N.)
6.	A. Rama Mohana Rao-I	46/01.07.2004	01.07.2004 (F.N.)
7.	M. Kalidas	46/01.07.2004	01.07.2004 (F.N.)
8.	S. Jaya Kumar	46/01.07.2004	01.07.2004 (F.N.)
9.	I. Nageswara Rao	55/02.07.2004	05.07.2004 (F.N.)

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The above officials should exercise option within one month from the date of promotion in terms of Government of India O.M. No. F.7/1/80-Estt.(P.I) dated 26.09.1981 and F.13/26/82-Estt.(P.I) dated 08.02.1983.

G. SRINIVAS  
Dy. Accountant General (Admn.)

Principal Accountant General (Audit)-I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Senior Audit Officers/Audit Officers (Civil) with effect from the date(s) noted against their names :—

Sl. No.	Name and Designation	Date of Retirement
1	2	3
1.	S/Shri A. Koteswara Rao, Sr. A.O.	30.06.2004 (A.N.)
2.	K. Pallapa Raju, Sr. A.O.	30.06.2004 (A.N.)
3.	R. M. Krishna Rao, Sr. A.O.	30.06.2004 (A.N.)

1	2	3
4.	S/Shri U. Padma Raju, Sr. A.O.	30.06.2004 (A.N.)
5.	Mirza Farooq Balg, Sr. A.O.	30.06.2004 (A.N.)
6.	A. Venugopala Rao-I, Sr. A.O.	30.06.2004 (A.N.)
7.	Y. Y. L. Narasimha Murthy, Sr. A.O.	30.06.2004 (A.N.)
8.	T. Chalapathi Rao, A.O.	30.06.2004 (A.N.)
9.	N. K. Gopala Krishnan, Sr. A.O.	01.07.2004 (F.N.) (Voluntary Retirement)

G. SRINIVAS  
Dy. Accountant General (Admn.)

Principal Accountant General (Audit)-I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Assistant Audit Officers (Civil) with effect from the date(s) noted against their names :—

Sl. No.	Name of the officers	Date of retirement
1.	S/Shri K. Satyanarayana-III	30.06.2004 (A.N.)
2.	J. Dharma Rao	30.06.2004 (A.N.)
3.	Ch. Brukalalah	30.06.2004 (A.N.)

G. SRINIVAS  
Dy. Accountant General (Admn.)

#### OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 2004

The Accountant General (A. & E.), A. P., Hyderabad is pleased to promote the undermentioned Assistant Accounts Officers to officiate as Accounts Officers in the Scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge as A.O.
1	2	3
1.	Shri O. Ramakrishna Rao	1st July, 2004 Forenoon
2.	Shri Ch. Nalasekhara Rao	1st July, 2004 Forenoon

1	2	3
3.	Ms. K. Akkamahadevi	1st July, 2004 Forenoon
4.	Ms. M. Meenakshi	1st July, 2004 Forenoon
5.	Ms. G. Usha Rani	5th July, 2004 Forenoon

The promotions ordered are without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (Admn.)

#### OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 16th July 2004

No. 3509-GE-I/176-98(Vol.-II).—The following IA & AS officers have retired from Government Service from the date shown against their names :—

S/Shri

1. Ananda Shankar Retired on superannuation with effect from 30.6.2004 (A.N.)
2. Kishori Lal -do-
3. N. P. Kapoor -do-

DEEPAK NARAIN  
Asstt. Comptroller &  
Auditor General (P)

#### MINISTRY OF COAL & MINES DEPARTMENT OF MINES GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 19th July 2004

No. 1788A/A-19012(2-TRB)/02/19B.—Sri Thammu Rajababu, Assistant Geophysicist Grade-I, stood released from Geological Survey of India w.e.f. 01.07.2002 (F.N.) for his joining to the post of Scientist-'B' (Jr. Geophysicist) in Central Ground Water Board, Guwahati keeping his lien in G.S.I. for a period of two years w.e.f. 01.07.2002 (F.N.).

K. C. GHOSH  
Administrative Officer  
for Director General  
Geological Survey of India

Kolkata-700016, the 19th July 2004

No. 1622/B/A-19011(1-KVC)/04/19A.—The President is pleased to appoint Shri K. V. Chandran to the post of Geologist (Jr.) in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the afternoon of 09-06-2004 until further orders.

S. K. SINHA  
Senior Administrative Officer  
for Director General  
Geological Survey of India

No. 1606/B/A-19012(1-MSS)/99-19A.—The Director General, Geological Survey of India is pleased to accept technical resignation as tendered by Shri M. Santhana Subramani from the post of Assistant Geologist Grade-I in Geological Survey of India w.e.f. 21.10.2003 (A.N.) in the event of his taking up new assignment as Jr. Hydrogeologist in Central Ground Water Board.

S. K. SINHA  
Senior Administrative Officer  
for Director General  
Geological Survey of India

#### MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-110003, the 8th July 2004

No. A-12039/5/94-E.I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Meteorologists Grade-II in a temporary capacity in India Meteorological Department with effect from the dates indicated their names and until further orders :—

Sl. No.	Name	Date from which officiating as Meteorologist Grade-II
1	2	3
1.	Shri N. T. Niyas	11.11.2003
2.	Shri Sanjay Bist	11.11.2003
3.	Shri Sidhartha	11.11.2003
4.	Shri C. S. Patil	11.11.2003
5.	Ms. S. A. Bhute	11.11.2003
6.	Shri Anil Kumar	11.11.2003
7.	Shri Kuldeep Srivastava-I	11.11.2003

1	2	3
8.	Shri Naresh Kumar	11.11.2003
9.	Shri A. C. Lyngdeh	11.11.2003
10.	Shri C. S. Tomar	11.11.2003
11.	Shri Sankar Nath	11.11.2003
12.	Shri A. K. Mitra	11.11.2003
13.	Shri R. Balasubramanian	11.11.2003
14.	Shri Rajavel Manickam	11.11.2003
15.	Shri U. K. Shende	11.11.2003
16.	Shri J. K. Singh Yadav	11.11.2003
17.	Shri Kuldeep Srivastava-II	11.11.2003
18.	Shri Anjit Anjan	11.11.2003
19.	Shri Rakesh Kumar	11.11.2003
20.	Ms. B. Amudha	11.11.2003
21.	Shri Meenatchi Nathan Nagamani	11.11.2003
22.	Shri P. S. Biju	11.11.2003
23.	Shri B. A. Kannan	11.11.2003
24.	Shri H. R. Biswas	10.03.2004
25.	Shri M. R. Ranalkar	10.03.2004
26.	Shri V. Revai Durai	10.03.2004
27.	Shri G. K. Sawaisarje	10.03.2004
28.	Shri Sunit Das	10.03.2004
29.	Shri P. Sunil	10.03.2004
30.	Shri Ananda Kumar Das	10.03.2004
31.	Ms. Manorama Mohanty	10.03.2004
32.	Shri A. P. Pandey	10.03.2004
33.	Shri Sreejith O. P.	10.03.2004
34.	Shri H. S. Mandal	10.03.2004
35.	Shri N. Puviarasan	10.03.2004
36.	Shri Ashok Kumar Das	10.03.2004

1	2	3
37.	Ms. V. K. Mini	10.03.2004
38.	Shri Sourav Adhikari	10.03.2004

A. K. BHATNAGAR  
Dy. Director General of Meteorology  
(Admin. & Stores)

#### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 2nd July 2004

#### CORRIGENDUM

No. PD/7(15)/2003-R-IV/595.—The post held at present shown at column No. 3 of this Research Centre's Gazette Notification of even number dated March 30, 2004, in respect of Shri A. S. Karkhanis (Sl. No. 4) is amended to read as "Draughtsman/F" instead of "Scientific Assistant/F".

Dr. G. D. PUNGLB  
Controller

Mumbai-400085, the 13th July 2004

No. PD/12(2)/2003-R-III/918.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri K. K. Dange, Upper Division Clerk, as Asstt. Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from 24.05.2004 to 25.06.2004.

K. C. DIVAKARAN  
Dy. Establishment Officer

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 5th July 2004

No. 18/1(2)/2003-ER/2113.—The President is pleased to appoint the following officers in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) on promotion to the next higher grades mentioned against their names with effect

from the forenoon of February 01, 2004 until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer & designation	Grade on Promotion	Scale of pay
1.	Shri Satish Ram-chandra Bhave, Scientific Officer/D	Scientific Officer/E	12,000-375-16,500
2.	Shri Jagannath Mishra, Scientific Officer/C	Scientific Officer/D	10,000-325-15,200
3.	Shri Virendra Ravindranath Dhotre, Scientific Assistant/D	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500
4.	Shri Nidhip M. Chodankar, Scientific Assistant/D	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500

K. PADMANABHAN  
Under Secy.

#### NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 10th July 2004

No. NFC/PAR-1/04/06/694/II.—Chief Executive, NFC appoints Shri Ch. Jagadesh, Upper Division Clerk as Asstt. Personnel Officer on adhoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 16.04.2004 to 10.07.2004 or until further orders whichever is earlier.

T. Y. PRAHALAD RAO  
Administrative Officer

Mumbai-400001, the 14th July 2004

No. 6(2369)/04/Adm./4725.—The President is pleased to appoint Shri S. Krishnan, Officer on Special Duty (scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-), Department of Atomic Energy, Mumbai, as Under Secretary in the same scale of pay in the same Department with effect from the forenoon of June 23, 2004 for a period of 3 years or until further orders whichever is earlier.

M. VENUGOPALAN  
Staff Relations Officer

Mumbai-400001, the 15th July 2004

No. 16/2(1)/2004-SUS/4748.—The President is pleased to appoint Shri P. Rajasekaran, SA/D, Civil, (scale of pay Rs. 7,450-225-11,500/-), General Services Organisation, Kalpakkam of this Department on promotion to the grade of Scientific Officer/'C' (scale of pay Rs. 8,000-275-13,500/-) in the same unit with effect from 01-02-2004 (F.N.) until further orders.

D. SURENDRAN  
Under Secy.

#### CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452013, the 7th July 2004

No. CAT/Admn./R-807(2)/621.—Director, Centre for Advanced Technology, Indore has appointed Shri Parivesh Jinwal, Steno Gr.-II to officiate as Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on adhoc basis with effect from the forenoon of 10.05.2004 to 10.06.2004 (A.N.) against leave vacancy.

S. C. JAIN  
Chief Administrative Officer

#### INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 5th July 2004

No. F-301-Ad.(AT)/2004.—Shri Thaker Rajendrakumar Chandulal, Steno Grade-III of Gujarat State Civil Supplies Corpn. Ltd., 'CH' Road, Gandhinagar is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Rajkot Bench, Rajkot in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 11.06.2004 (F.N.) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Deptt. of Personnel & Training), O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

VIMAL GANDHI  
President

No. F.48-Ad(AT)/2004.—The following officials are hereby appointed to officiate as Assistant Registrars, Income-tax Appellate Tribunal on ad-hoc basis in a temporary capacity for a period of three months from

the date and in the Bench(es) indicated against each or till the posts are filled up on regular basis whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Bench(es)	Date
1.	S/Shri R. N. Lokhandwalla (Superintendent)	Panaji	28.06.2004
2.	Ekka Peter (Office Supdt.)	Delhi	28.06.2004

The above appointments are ad-hoc and will not bestow upon them a claim for regular appointment in that grade and the services rendered by them on adhoc basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI  
President

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. C. R. Bagri Private Limited.

New Delhi-110003, the 17th February 2004

No. 560(3)/331/SES/55/100852/3458.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. C. R. Bagri Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies.

Bangalore-560034, the 25th June 2004

No. STA/NKR/560(5)/2004-05.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	2111	M/s. Shreeshyla Timex Private Limited
2.	2093	M/s. Shreeshyla Connectors Private Limited.

B. A. M. P. RATHNA SAMI  
Dy. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dolphin Constructions Limited.

New Delhi-110003, the 2nd July 2004

No. 560(3)/55/49270/514.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dolphin Constructions Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies.

Pondicherry-605011, the 15th July 2004

No. 560(5)/SES/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Companies and are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company	Date of Regn.
1	2	3	4
1.	1336	M/s. Tristar Energy Limited	4.8.1997
2.	1384	M/s. Shree Abirami Plastics Private Limited	9.3.1998

1	2	3	4	1	2	3	4
3.	1401	M/s. Sole Flex (India) Private Limited	3.6.1998	21.	1519	M/s. Churchgate Hotels Private Limited	27.1.2000
4.	1552	M/s. Sri Kothari Engineers Private Limited	12.9.2000	22.	1625	M/s. Midwest Granite (Pondicherry) Private Limited	18.01.2002
5.	1494	M/s. Krishna Information Processing India Private Limited	1.10.1999	23.	192	M/s. Yanam Papers Limited	16.3.1982
6.	733	M/s. Sabari Pharmaceuticals Private Limited	4.2.1991	24.	301	M/s. Ponne Papers and Boards Limited	11.12.1985
7.	183	M/s. Sharda Electrical Industries Private Limited	21.10.1981	25.	812	M/s. Balaji Shares Private Limited	21.5.1992
8.	1489	M/s. Netwings Tradings Private Limited	16.09.1999	26.	1145	M/s. Westwood Finance and Leasing Limited	4.10.1995
9.	1355	M/s. Sri Mobius Constructions Private Limited	20.11.1997	27.	1362	M/s. Sivakrupa Enterprises Private Limited	12.12.1997
10.	1277	M/s. Shree Lala Trading Private Limited	2.12.1996	28.	622	M/s. Seacoast Chemicals Private Limited	27.12.2003
11.	1521	M/s. Vaisel Exports Private Limited.	9.2.2000	29.	1478	M/s. Rasyka Trading and Services Private Limited	1.7.1999
12.	1555	M/s. Toby Electronics Private Limited	25.09.2000	30.	1492	M/s. Pankaj Traders Private Limited	24.9.1999
13.	1418	M/s. Richiross Builders Private Limited	4.8.1998	31.	1408	M/s. Western Green Granites Private Limited	9.6.1998
14.	1369	M/s. Sairam Plastics Private Limited	9.1.1998	32.	1407	M/s. Tropical 'Granites (India) Private Limited	9.6.1998
15.	1453	Bien Marketing Associates Private Limited	12.3.1999	33.	1157	M/s. Siddhi Vinayak Chits Private Limited	10.11.1995
16.	1337	M/s. Trusted Travel and Forex Private Limited	12.8.1997	34.	770	M/s. Lakshmi Residents Mutual Benefits Fund Limited	14.10.1991
17.	1435	M/s. Access Informatics (Pondy) Private Limited	15.10.1998	35.	760	M/s. Lakshmi Structurals Private Limited	22.8.1991
18.	1303	M/s. Maras Matra Tourist Bureau and Services Private Limited	17.3.1997	36.	1007	M/s. Dolphin India Granites Private Limited	10.10.1994
19.	1273	M/s. Sri Manakula Vinayakar Finance Limited	4.11.1996	37.	1456	M/s. St. Joseph's Modern Rice Mill Private Limited.	30.3.1999
20.	1351	M/s. Eliys Aluminium Private Limited	24.10.1997				

M. KANNAN  
Registrar of Companies  
Pondicherry